



जुट जायें सम्पत्ति सार्वजनिक करने में पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने लोकसेवकों की सम्पत्ति वेबसाइट पर सार्वजनिक करने खातिर सभी विभागों व जिलाधिकारियों को फिर चौकस किया है। उनसे कहा गया है कि वे अभी से इसकी तैयारी में जुट जायें। सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी आनंद बिहारी प्रसाद ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों के नाम इस संबंध में पत्र भेजा है। इसके अनुसार राज्य में पदस्थापित एवं कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और राज्य सरकार के समूह क ख और ग के सभी सरकारी सेवकों के लिए अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति के संबंध में घोषणा किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद इसे वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना है। जिस फार्म में ब्योरे की जानकारी देनी है, वह सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 28 फरवरी तक सरकारी सेवकों को अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारियों के यहां ब्योरा समर्पित करना है। इसके बाद नियंत्री पदाधिकारी उसे संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेंगे। प्राप्त होने वाली विवरणियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी (विभाग-जिला स्तर के नियुक्ति पदाधिकारी) द्वारा विभाग-कार्यालय के वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे। समयसीमा के भीतर बड़ी संख्या में लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालना है। इस आलोक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अभी से अपेक्षित कार्रवाई प्रारंभ कर लें, ताकि समयसीमा के भीतर टास्क निश्चित रूप से पूरा हो सके। अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा गया है कि सूचनाएं टंकित और आसानी से पढ़ने योग्य हो।